



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 147] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 1983/चैत्र 7, 1905  
No. 147] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 1983/CHAITRA 7, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)  
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1983

का०आ० 228 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के अनुरोध पर 28 मार्च, 1983 में आंध्र प्रदेश राज्य में श्री शातवाहन ग्रामीण बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के करीमनगर जिले की स्थानीय सीमाओं में कार्य करेगा।

[संख्या एफ० 1-19/82-आर०आर०बी०(i)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
(Banking Division)  
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th March, 1983

S.O. 228(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976

1516 GI/82

(21 of 1976) the Central Government on being requested so to do by State Bank of Hyderabad established with effect from the 28th March, 1983 a Regional Rural Bank in the State of Andhra Pradesh under the name of Shri Sathavahana Grammeena Bank which shall operate within the local limits of the district of Karimnagar in the State of Andhra Pradesh.

[No. F. 1-19/82-RRB(I)]

का०आ० 228(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा श्री शातवाहन ग्रामीण बैंक के प्रायोजक स्टेट बैंक आफ हैदराबाद से परामर्श करके करीमनगर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर श्री शातवाहन ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1-19/82-आर०आर०बी० (II)]

S.O. 229(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-section 1 of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of Hyderabad by which Shri Sathavahana Grammeena Bank has been sponsored, specifies Karimnagar as the place where Shri Sathavahana Grammeena Bank shall have its head office.

[No. F. 1-19/82-RRB(II)]

**का०आ० 230 (अ).—**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए श्री शातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक० 1-19/82-आर०आर०बी० (iii)]  
वि० के० दीक्षित, संयुक्त सचिव

**S.O. 230(E).**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies for the purpose of the said sub-clause, Shri Sathavahana Gramicena Bank, Karimnagar being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-19/82-RRB(III)]  
V. K. DIKSHIT, R. Secy.

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1983

**का०आ० 231 (अ).—**प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा II की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा श्री डी० कृष्णमूर्ति राव को श्री शातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 28 मार्च, 1983 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री डी० कृष्णमूर्ति राव अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एक० 1-19/82-आर०आर०बी० (IV)]

राम बेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 26th March, 1983

**S.O. 231(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the regional Rural Banks Act 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints

Shri D. Krishna Murthy Rao as Chairman of the Shri Sathavahana Gramicena Bank, Karimnagar and specifies the period commencing on the 28th March, 1983 and ending with the 31st March, 1986 as the period for which the said Shri D. Krishna Murthy Rao shall hold office as such Chairman

[No. F. 1-19/82-RRB(IV)]  
RAM BEHRA, Under Secy

**भारतीय रिजर्व बैंक**  
**ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष**  
**अधिसूचना**

बम्बई, 28 मार्च, 1983

**का०आ० 232 (अ).—**भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात् :-

“श्री शातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर, आंध्र प्रदेश”

[आर०पी०सी०डी० संख्या 259/आर०आर०बी०/एल०/311-83]

एच०बी० शिवमग्गी, कार्यपालक निदेशक

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**RURAL PLANNING AND CREDIT DEPARTMENT**  
**BOMBAY**  
**NOTIFICATION**

Bombay, the 28th March, 1983

**S.O. 232(E).**—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India, Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

“Shri Sathavahana Gramicena Bank, Karimnagar (A.P.)”.

[RPCD. No. 259/INCL/311-83]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director